

Faalcon Concepts Limited CIN L74999HR2018PLC074247

Dated: 09.09.2025

To,

BSE Limited Listing Department, 1st Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.

BSE SCRIP Code: Faalcon 544164

SUB:- POST DISPATCH NEWSPAPER ADVERTISEMENT – DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 AND REGULATION 47 OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 ("SEBI LISTING REGULATIONS")

Dear Sir,

Dear Sir,

We hereby wish to inform you that the Company has completed the dispatch of the Notice of the 07th Annual General Meeting and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2025 on September 09, 2025. In compliance with the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements regarding the 07th Annual General Meeting of the Company published on September 09, 2025,

In the following newspapers:

- a) Financial Express of (in English); and
- b) Hindi edition of Jansatta (in Hindi).

Please take the same on your records. Please take note of the above-mentioned information for your reference.

For Faalcon Concepts Limited

Ekta Seth

Managing Director

DIN: 08141902

N-75 Ground Floor Mayfield Garden,

Sector-51, Gurgaon, Haryana, India, 122018

DHARAN NAIR

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

hereby given that the below mentioned Equity share certificate(s) of EICHER MOTOR LIMITED ("The Company") registered in our/ my name has been lost/misplaced by me/us and

43601-43700

Theref	me nas aiready been tr ore, L'We have applier ED (having its registere hamba Road, New Delhi	d for Issue of office at Offi	of duplicate share ce fice No. 1111, 11th Fl	rtificate(s) t	O EICHER MOTORS
SR. NO.	NAME OF SHAREHOLDER(S)	FOLIO NO	DISTINCTIVE NO.	CERTI NO/S	NO. OF SHARES(QTY)
1	T MURALEE	The second	43501-43600	454	100

Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities in any way. Any perso having any claim in respect of the aforesaid Equity Shares Certificate(s), should immediately service full details with documentary evidence to the Company's RTA - MUFG Intime India Private Limited at its office at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra, 400083 or to the Company at its Registered Office mentioned above within 15 days of date of publication of Notice he company will, after expiry of such period proceed for the issue of Duplicate Equity Share Certificate(s) in my/our name without further information. fease note that no claims will be entertained by the Company or the RTA with respect to original

Equity Shares Certificate(s) subsequent to the issue of duplicate thereof DATE: 09.09.2025 Name: Muralidharan Nai PLACE: Delhi

easy Easy Home Finance Limited

Reg. Office: 302, 3rd Floor, Savoy Chambers, Dattatray Road & V. P. Road (EXTN.), Santacruz West, Mumbai - 400054, CIN: U74999MH2017PLC297819 Website: www.easvhfc.com | Email: contact@easvhomefinance.in Toll Free: 1800 22 3279 | Tel: +91 22 3550 3442 | Tel: +91 22 3521 0487 **APPENDIX IV RULE 8 (1)**

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

WHEREAS

The undersigned being the Authorized Officer of the Easy Home Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated June 12, 2025 calling upon the Mr. PAWAN KUMAR and Mrs. KAMLA (Borrower/Co-Borrower/Mortgagor) to repay the amount mentioned in the notice being of Rs. 6,52,363/- (Rupees Six Lakh Fifty-Two Thousand Three Hundred Sixty- Three only) along with further overdue charges from 13(2) till date of payment and/or realization in full within 60 days from the date of the said notice.

The borrower/co-borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/co-borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred or him under section 13 (4) of the Act read with Rule 6 & 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrower/co-borrower/mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property shall be subject to the charge of the Easy Home Finance Limited for an amount of Rs. 6,52,363/- (Rupees Six Lakh Fifty-Two Thousand Three Hundred Sixty-Three only) along with further overdue, Interest etc. charges from 13(2) till date of payment and/or realization in full within 60 days from the date of the said notice. The borrower's attention is invited to the provision of sub section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

All that part and parcel of the property bearing Property Address: 344,Bankhanda Hapur, Shiv Mandir, Hapur Ghaziabad, Uttar Pradesh, India, 245201. As per Sale Deed:- East: House of Chakundar, West: Khet Jitendra, North: Khet Purusuttam, South: 5 ft wide Gali . As per Site: East: House of Chakundar, West: Land of Other, North: Agricultural land of Purusuttam, South: 5 ft wide Gali

Date: September 05, 2025 Place: Uttar Pradesh

EASY HOME FINANCE LIMITED

Sd/- Authorized Officer

WEIGHT A BOHRA INDUSTRIES LIMITED CIN: L24117RJ1996PLC012912

Registered Office: 301, Anand Plaza, University Road, Udaipur, Rajasthan 313001

Email id: bil@bohraindustries.com, Phone: +91-294-2429513; Fax: +91-294-2429515 Website: http://www.bohraindustries.com

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Bohn

ndustries Limited ("Company") will be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 01:00PM (IST through VC/ OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read wit he Rules made thereunder, General Circular No.09/2023 dated 25th September 2023 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars*).SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7thOctober 2023 SEBI Circular) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 201 SEBI Listing Regulations"), to transact the business set forth in the Notice of 29thAGM of the Company. n compliance with theMCA Circulars& SEBI Circular, the Company has dispatched the AGM Notice

and the Annual Report for Financial Year 2024-25 on Monday, 08thSeptember2025via e-mail, to those ransfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited. The AGM Notice and the Annual Report fo Year 2024-25are also available on the Company's website a ttp://www.bohraindustries.com/, website of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange ndia Limited at www.nseindia.com, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent i.e Bigshare Services Pvt. Ltd at https://ivote.bigshareonline.com. fembers participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum unde

ection 103 of Companies Act, 2013. The instructions and procedure for joining the AGM are provided in

The ordinary and special businessesas set out in the Notice of AGMmay be transacted through emote e-voting or e-voting facility at the AGM.

The Remote e-voting period shall commence at 09:00 AM (IST) on 27th September, 2025 and shall end n 29thSeptember, 2025at 6:00 PM (IST).

The Cut-off date for determining the eligibility of the member for voting through remote e-voting/ voting at the AGM isTuesday, 23rd September, 2025.

4.Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the Annual Report and Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23rdSeptembe , may obtain the login ID and password by sending a request at ivote@bigshareonline.com 5.Mr.Surva Prakash MoudflCSI Membership No. F12943), proprietor of M/s. S.P. Moud & Associate Practicing Company Secretaries (UniqueS2023RJ906400)has been appointed as the Scrutinizer t

crutinize the e-voting process in a fairand transparent manner The members may note that (i) the remote e-voting module shall be disabled for voting after the dat and time mentioned hereinabove. (ii) once the vote on a resolution is cast by a member, the membe it all not be allowed to change it subsequently; (iii) the facility of voting through electronic voting system shall be made available at the AGM. (iv) the members who have cast their vote by remote e-voting pric o the AGM may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the Meeting; and (a person whose name is recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Ownersmaintains by the depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/s oling at the AGM and a person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.

Asked Questions ('FAQs') and i-Vote e-Voting module available at https://ivote.bigshareonline.com under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22 Afternatively, the Members may also write an e-mail to the Company at bil@bohraindustries.com fo

CIN: L74899DL1990PLC042302

Read Office: B1/E-24 Mohan Co-operative Industrial Area.

Mathura Road, New Delhi- 110 044

Tel.No. 91-11-41679238, E-mail: drfresh@drfreshassets.com;

Website: www.drfreshassets.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of members of Dr

Fresh Assets Limited ('Company') will be held on Saturday, September 27, 2025 at

04.30 PM (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'

in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules

made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs

Circulars Dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and September 25, 2023 and

SEBI Circulars dated October 7, 2023 read with SEBI Master Circular dated July 11, 2023

read with General Circular 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry o

Corporate Affairs (MCA') and SEBI/HO/CD/CD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October

3, 2024 issued by SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM www.evoting.nsdl.com and

members participating through VC / OAVM facility shall be reckoned for purpose of

In compliance with the MCA Circulars, electronic copy of the Notice of the AGM and

Annual Report for financial year 2024-25 have been sent to all members whose email ID

was registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent, M/s MAS Services

Limited ('RTA') / Depository Participant(s). The Notice of the AGM and Annual Report

for financial year 2024-25 are also available on the Company's website

www.Drfreshassets.com and on website of the Stock Exchanges, i.e., MSEI Limited a

www.msei.in and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL'

(agency for providing remote e-voting and e-voting facility) at www.evoting.nsdl.com.

E-Voting: Pursuant to provisions of the Act, SEBI Listing Regulations and MCA Circulars,

the Company is providing to its members facility to exercise their rights to vote on

resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means. Members may cast their

votes remotely ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of NSDI

Further, facility for voting through electronic voting system will also be made available at

the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-

voting will be able to vote at the AGM through e-voting during AGM. Further, shareholders

may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-

Members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through

NSDL. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in Notice.

Details as required pursuant to provisions of the Act and Companies (Management and

5. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM (IST) on September 26, 2025

Contact details of the person responsible to Ms. Vijay Prakash Pathak, Director

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting

have been sent to members through e-mail. The same login credentials should be used

Please note that a person whose name is recorded in register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositories as on Cut-off date shall be

entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The remote e-

Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company

after dispatch of Notice of AGM and hold shares as on the Cut-off date i.e. September 20

2025, may obtain login ID and password in manner as mentioned in instructions sent along

In case of any queries with respect to remote e-voting or e-voting during AGM or attending

the AGM through VC/OAVM, shareholders may contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or

contact Mr. Sharwan Mangla, General Manager, MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor

Okhla Industrial Area Phase II New Delhi 110020, at the designated email id

voting module shall be disabled by NSDL for voting after remote e-voting period.

September 6, 2025

From 09:00 AM (IST)

Up to 05.00 PM (IST)

on September 26, 2025

Delhi- 110 044

Saturday, September 20, 2025

452, DDA Janta Flats, Badarpur

Telephone No.: 011-41679238

Email Id: drfresh@drfreshassets.con

Dr. Fresh Assets Limited

Whole Time Director, DIN: 07081958

Vijay Prakash Pathak

on September 24, 2025

as the agency to provide remoting e-voting facility and e-voting during the AGM.

Instruction for remote e-voting and/or e-voting during AGM:

voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

Administration) Rules, 2014 given hereunder:

. Date of completion of sending of Notices

Date and time of commencement of

3. Date and time of end of remote e-voting

for attending the AGM through VC/ OAVM.

address the grievances connected with the

info@masserv.com who will address the grievances.

through e-mail

remote e-voting

electronic voting

4. Cut-off date

with the Notice.

Place : New Delhi

Date: 06.09.2025

n case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently

any gueries/information

business set out in the Notice of the AGM.

guorum under Section 103 of the Act.

For Bohra Industries Limited Place: Udaipur

Date: 8thSeptember, 2025

Sd/- Anshu Kumari Agarwal Company Secretary & Compliance Officer

DR FRESH ASSETS LIMITED

HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED

TruCap Finance Limited reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &

Corporate Identity Number: L01119DL1990PLC040979 Regd. Office: C-1/5, Second Floor, Safdarjung Development Area, Hauz Khas, New Delhi-110016, India Tel: +91 98102 73609; Website: www.hindustanagrigenetics.co.in, E-mail: hindustanagrigenetics@gmail.com

Dear Shareholder(s), Subject: Web-link of the 35th Annual Report for the Financial Year ended March 31, 2025

We are pleased to inform you that, the 35th Annual General Meeting ("AGM" of HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED ("Company") is scheduled to be held on Saturday, September 27, 2025 at 11:00 a.m. (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM").

The Notice convening the 35th AGM of the Company ("Notice") along with Annual Report for the financial year 2024-25 was sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/respective Depository Participants ("DPs"). In compliance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") as amended, the web-link containing complete details of the Annual Report for the financial year 2024-25 is being sent to those shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Company/RTA/ Dps.

is not registered against your demat account/ Folio No. Therefore, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, we are sending you this letter to inform you that the Notice of the 35th AGM and Annual Report for financial vear 2024–25 can be accessed through web-link, provided below.

As per the records available with the Company/RTA/DPs, your email address

Web-link	http://hindustanagrigenetics.co.in/files/documents/49d97194-e2b6-4277-b202-ed072961ae4c.pdf,
Exact Path	www.hindustanagrigenetics.co.in > Investor Information > ANNUAL REPORT 2024-25

Key Details of the AGM are as follows:

Event	Dates
Cut-off date / Record date	Saturday, September 20, 2025 (Remote e-Voting / e-Voting / Dividend)
Book Closure Dates	Sunday, September 21, 2025 to Saturday, September 27, 2025 (both days inclusive)
Remote e-Voting Period	09:00 A.M., Tuesday, September 23, 2025

to 05:00 P.M., Friday, September 26, 2025 Please note that pursuant to the SEBI master circular no. SEBI/HO/MIRSD/ POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, read with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated June 10, 2024, the shareholders holding shares in physical form whose folio(s) do not have Permanent Account Number ("PAN"), Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details, Specimen Signature updated ("KYC"), shall be eligible for payment of dividend, in respect of such folio(s), only through electronic mode upon their furnishing all the aforesaid details in entirety to MCS Share Transfer Agent Limited, RTA of the Company. Further, SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/ P/CIR/2024/81 dated June 10, 2024, has encouraged all existing investors, in their own interest, to provide a 'choice of nomination' to ensure smooth transmission of securities and to help prevent the accumulation of unclaimed assets in the securities market.

For any queries or assistance regarding KYC updation, shareholders holding shares in demat form are requested to contact their respective DPs. Shareholders holding shares in physical form are requested to reach out to the Company's RTA at: einward.ris@kfintech.com

We also request you to kindly update your email address in your demail account/folio no. with your DP/RTA/Company so that you may receive the Annual Report of the Company in electronic mode in the future. Thanking you Yours faithfully

> For HINDUSTAN AGRIGENTICS LIMITED (ISIN No INE092301014) **PRITAM KAPUR**

Director DIN - 00461538 C-63, South Extension, Part-II, New Delhi-110049

CHANGE OF NAME

I Kamla Pant W/o Dinesh Chandra Upreti R/o House No. B-15, Gali No. 2, Sadatpur Colony, Karawal Nagar, Delhi-110094, have changed my name after marriage to Kamla Upreti as per the affidavit filed on 29th August, 2023. In this case, Kamla Pant, Kamla Upreti and Kamla Devi belongs only to one and same person.

FROM NO. 14

2712/25

NORTHERN RAILWAY

NOTICE FOR E-AUCTION

Senior Divisional Commercial Manager/FS, Delhi Division, Northern Railway, in terms of Railway Board letter no

2022/TC(FM)/ 10/04 dated 13.06.2022, invites bids through e-Auction (www.ireps.gov.in) for the contract of Parking curr

Management and Stacking of parcel at New Delhi Railway Station (Ajmeri Gate Side, NE-1) (Area 2191.87 Sq. Mtrs.) for

Important notes: 1. For more information, requirement and various aspects regarding these e-Auctions, interested bidders

are advised to visit https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/learning_centre.html. (e-Auction leasing section). 2. Earnest

Money Deposit (EMD): 10% of the total contractual bid value to be deposited online during the auction. EMD of the successful

bidder will be retained as Security Deposit, 3. Railway Administration reserves the full and absolute rights to short terminate

these contracts at any point of time and/or for taking any decision regarding the discontinuation/continuation of these contracts

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

(Ajmeri Gate side, NE-1) (Area 2191.87 Sq. Mtrs) for 2 (Two) years.

Assets to be auctioned

The contract of Parking cum Management and Stacking of Parcel at New Delhi Railway Station

TruCap Finance Limited

TruCap Finance Limited

2 (Two) years as per detail and schedule given below:-

with modified/additional terms and conditions depending upon the situations.

TRUCAP FINANCE LIMITED

Registered Office: Register office at 4 th Floor, A Wing, D.J. House,

Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra,

GST No: 27AAACD9887D1ZC

Corporate Identity Number: L64920MH1994PLC334457

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by

Branch address: TruCap Finance Limited, Noida Sec-18, 1st floor Office No 102, Visha

The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who

have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these

The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various

Ghaziabad Branch: GL0000000279475 , GL0000000280224 , GL0000000286611

GL0000000292181, GL0000000294282, GL0000000296376, GL0000000331390

Noida Bhangel Branch: GL0000000217740 , GL0000000295859 , GL0000000301838

GL000000301896, GL0000000302500, GL0000000330883, GL0000000332164

TruCap Finance Limited reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &

TRUCAP FINANCE LIMITED

Registered Office: Register office at 4 th Floor, A Wing, D.J. House,

Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra,

GST No: 27AAACD9887D1ZC

Corporate Identity Number: L64920MH1994PLC334457

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by

Branch address: TruCap Finance Limited, 2993, Old Bus Stand road (Main Road), Tri Nagar,

The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who

have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these

The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various

Dilshad Colony Branch: GL0000000079141, GL0000000079750, GL0000000154350

GL0000000155288, GL0000000155294, GL0000000155899, GL0000000172094

GL0000000207676, GL0000000223035, GL0000000330650, GL0000000332547

Kirari Branch: GL0000000294861, GL0000000296124, GL0000000296432

Mayur Vihar Branch: GL0000000219676, GL0000000292186, GL0000000297563

Tri Nagar Branch: GL0000000266514, GL0000000294642, GL0000000296939

Rani Bagh Branch: GL0000000291019, GL0000000292552, GL0000000295111.

TruCap Finance Limited on 25th September 2025 at Tri Nagar, at 11:00 A.M.

Customers mentioned below with branch name.

GL0000000298064, GL0000000332056

Contact Person: Satish Kumar

Contact Number(s): 9560735444

For more details, please contact TruCap Finance Limited.

postpone / cancel the auction without any prior notice.

GL0000000297014. GL0000000297252. GL0000000332246

GL0000000335597

GL0000000298376

TruCap Finance Limited on 25th September 2025 at Noida Sec-18 at 11:00 A.M.

Date & time

of e-Auction

19.09.25 at

13:00 hrs.

Chamber Sec-18, Noida-201301.

Customers mentioned below with branch name.

GL0000000332809, GL0000000335580

Contact Person: Satish Kumar

Contact Number(s): 9560735444

Noida Sec-18 Branch: GL0000000260138.

For more details, please contact TruCap Finance Limited

postpone / cancel the auction without any prior notice.

No

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERTY TRIBUNAL, DELHI (DRT 1) 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001 **DEMAND NOTICE**

NOTICE UNDER SECTION 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT. 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 TRC/857/2022 11.08.2025 UNION BANK OF INDIA (E-ANDHRA BANK) VERSUS VIKASH INTERPRISES

(CD1) M/S VIKASH ENTERPRISES, THROUGH ITS PROP. MUKESH SHARMA, B-16, 3RD FLOOR, VANTIKA SECTOR 1, ROHINI DELHI-110085

ALSO AT: B 17TH FLOOR, AVANTIKA, SECTOR 1, ROHINI, DELHI-110085 ALSO AT: 11 NO. 153, KHASRA NO. 60/3, POOTH KALAN NEAR BRAHM SAKTI HOSPITAL DELHI-110083. This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the

Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL. DELHI (DRT 1) in an amount Rs 15,92,623.09 along with pendentellite and future interest @ 10 % w.e.f. 01/07/2018 till realization and costs of Rs 18000 has become due against you (Jointly and severally/ 2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing

which the recovery shall be mad in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act. 1993 and Rules there under. 3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particular of yours assets on or before the

next date of hearing. 4. Your are hereby ordered to appear before the undersigned on 27.10.2025 at 10:30 a.m. for further proceedings.

5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:

(a) Such interests as in payable for the period commencing immediately after this notice of the

certificate/execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants

and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due. Given under my hand and the seal of the Tribunal. on this date: 11.08.2025 **NIRANJAN SHARMA**

Recovery Officer-II DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DELHI DRT-II

TRUCAP FINANCE LIMITED Registered Office: Register office at 4 th Floor, A Wing, D.J. House,

Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, **GST No:** 27AAACD9887D1ZC

Corporate Identity Number: L64920MH1994PLC334457

PUBLIC NOTICE This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by

TruCap Finance Limited on 25th September 2025 at Faridabad at 11:00 A.M. Branch address: TruCap Finance Limited, SCF -1, Ashoka Enclave Part 1, Opp. Kanishka Tower, Sector -34, Faridabad - 121003. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who

borrowers. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various Customers mentioned below with branch name.

Faridabad Branch: GL0000000284721 , GL0000000289307 , GL0000000292443 GL0000000292654, GL0000000292938, GL0000000293071, GL0000000294072

GL0000000330432, GL0000000334137. NIT B K Chowk Branch: GL0000000138812, GL0000000207191, GL0000000213337 GL0000000222401, GL0000000226878, GL0000000247054, GL0000000279931

GL0000000294146, GL0000000294206, GL0000000295925 Palwal Branch: GL0000000294511 , GL0000000333319 , GL0000000335610

GL0000000335823, GL0000000336319, GL0000000337616.

For more details, please contact TruCap Finance Limited **Contact Person: Satish Kumar**

Contact Number(s): 9560735444

lacktriangle TruCap Finance Limited reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/

postpone / cancel the auction without any prior notice. **TruCap Finance Limited**

SUNEHARI EXPORTS (HARIDWAR) LIMITED CIN: U36102DL2009PLC188045

Regd Office: B 1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi- 110 044 Tel.No. 91-11-41679238, E-mail: sunehari@sunehari.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ('AGM') of members of

Sunehari Exports (Haridwar) Limited ('Company') will be held on Saturday, September 27, 2025 at 05.30 PM (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs Circulars Dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and September 25, 2023 and SEBI Circulars dated October 7, 2023 read with SEBI Master Circular dated July 11, 2023 read with General Circular 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA') and SEBI/HO/CD/CD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3. 2024 issued by SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the relevant circular, the Notice of AGM and the Annual Report 2024 25 including the financial statements for the financial year 2024-25, along with Directors' Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depositary Participant(s). The aforesaid documents will also be made available on the website of National Securities Depository Limited i.e www.evoting.nsdl.com

Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM www.evoting.nsdl.com and members participating through VC / OAVM facility shall be reckoned for purpose of quorum under Section 103 of the Act. Instruction for remote e-voting and/or e-voting during AGM:

E-Voting: Pursuant to provisions of the Act, SEBI Listing Regulations and MCA Circulars, the Company is providing to its members facility to exercise their rights to vote on

resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means. Members may cast their votes remotely ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of NSDL

as the agency to provide remoting e-voting facility and e-voting during the AGM. Further, facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote evoting will be able to vote at the AGM through e-voting during AGM. Further, shareholders may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote evoting but shall not be allowed to vote again at the AGM. Members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through

NSDL. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in Notice. Details as required pursuant to provisions of the Act and Companies (Management and Administration) Rules, 2014 given hereunder: 1. Date of completion of sending of Notices September 6, 2025

1			through e-mail	
i	2	2.	Date and time of commencement of	From 09:00 AM (IST)
i			remote e-voting	on September 24, 2025
7	3	3.	Date and time of end of remote e-voting	Up to 05.00 PM (IST)
1		Ш		on September 26, 2025
	4	4.	Cut-off date	Saturday, September 20, 2025
ίl			Remote e-voting shall not be allowed beyond	
ľ	(6.	Contact details of the person responsible to	Ms. Vijay Prakash Pathak, Director
۱			address the grievances connected with the	452, DDA Janta Flats, Badarpur
ا',			electronic voting	Delhi- 110 044

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC/ OAVM.

register of beneficial owners maintained by the depositories as on Cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The remote evoting module shall be disabled by NSDL for voting after remote e-voting period. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company

2025, may obtain login ID and password in manner as mentioned in instructions sent along In case of any queries with respect to remote e-voting or e-voting during AGM or attending the AGM through VC/OAVM, shareholders may contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or

Okhla Industrial Area Phase II New Delhi 110020, at the designated email id info@masserv.com who will address the grievances. For Sunehari Exports (Haridwar) Ltd

Vijay Prakash Pathak

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED CIN: L38210DL1985PLC020853

Regd. Office: Unit 204, Plaza P-3, Central Square, 20 Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Sadar Bazar, Delhi, India - 110006

Tel. No. +91 7992313157, Website: www.snsind.in & E-Mail: sns.prop.ltd@gmail.com NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE

AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 30th day of September 2025, at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of 39th AGM, in accordance with applicable MCA and SEBI Circular. The deemed Venue for AGM will be Unit 204, Plaza P-3, Central Square 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Sadar Bazar, Delhi- 110006. In Compliance with MCA and SEBI Circulars, Notice of the AGM and the Annual Report of the

Company for the financial year 2024-25 have been sent only through electronic mode to all the Members of the Company, who have registered their email IDs with the Depository Participants/ Registrar and Transfer Agents ("RTA"). Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules

framed thereunder that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, SS-2, Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations,

2015 and relevant MCA & SEBI circulars, the Company is providing remote e-voting facility to its Members for voting on the business specified in Notice through NSDL. Members are informed that: a)The remote e-voting period commences on Saturday, September 27, 2025 (9:00 A.M.) to

Monday, September 29, 2025 (5:00 P.M.)

b)Cut-off date: Tuesday, September 23, 2025 c)Any person, who acquire shares of the Company and become member of the Company after

Place: New Delhi

Date: September 08, 2025

Friday, September 05, 2025 i.e. BENPOS date considered for dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2025, may obtain login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.com / sns.prop.ltd@gmail.com/ admin@skylinerta.com. However, if the person is already registered with NSDL, then the existing user ID and password can be used for d) The manner of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-Voting

during the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice convening

 e)Remote e-voting will not be allowed beyond Monday, September 29, 2025 (5:00 P.M.) f)Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting, may also attend the

meeting, but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. g)A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 23, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

h)Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with

the Company may update their email addresses by sending a duly signed request letter to the Company's RTA, M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at admin@skylinerta.com mentioning their Name, Folio No., Address and Email ID along with a self-attested copy of PAN card. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant(s). The Notice of AGM and Annual Report are available on the Company's website at https://snsind.in/annual-reports/, on NSDL website www.evoting.nsdl.com and on the websites of the Stock Exchanges, i.e., Metropolitan Stock Exchange of India Limited at) In case of any Queries regarding remote e-voting, Members may refer Frequently Asked Questions

"FAQ") and remote e-voting manual available at the download section of https://evoting@nsdl.com or call on toll free number: 022-4886-7000 or send a request at evoting@nsdl.com. In case of any grievances connected with facility for remote e-voting, Please contact: Mr. Sarbesh Singh, Manager, Skyline Financial Services Pvt. Ltd., D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 Tel: +91-11-40450193-97, Email: admin@skylinerta.com.

For SNS Properties and Leasing Limited (Sujata Kumari)

Company Secretary and Compliance Officer

FAALCON CONCEPTS LIMITED REGD. OFF: N-75 Ground Floor Mayfield Garden, Sector-51, Gurgaon, Haryana, India,

CIN: L74999HR2018PLC074247, ISIN: INE0Q9W01015 SCRIP CODE: 544164, SCRIP ID: FAALCON, EMAIL ID: info@faalcon.in. Website www.faalcon.in **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE**

lotice is hereby given that the 07th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Faalcon Concepts Limited will be held on September 30, 2025 at 05:00 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('SEBI Listing Regulations') read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and subsequent circulars issued in this regard, latest being the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and other relevant circulars issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (collectively referred to as 'MCA Circulars' and 'SEBI Circulars') companies are allowed to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of shareholders at a common venue. Accordingly to transact the businesses as set out in the Notice of 07th Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice of 07th Annual General Meeting along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 on September 08, 2025 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.faalcon.in

Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42

of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from September 24, 2025 to September 30, 2025 (both days inclusive). Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 23, 2025, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 07th Annual General Meeting through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 07th Annual General Meeting of the Company.

In this regard, the members are hereby further notified that: . The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the AGM is

Date: September 8, 2025

Place: Gurgaon

September 23, 2025. The remote E-voting period will commence from September 27, 2025 at 9:00 A.M.

(IST) and will end on September 29, 2025 at 5:00 P.M. (IST). Remote E-voting shall not

be allowed beyond the aforesaid period. 3. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the AGM.

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.

The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM Notice. The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in the

AGM Notice. Faalcon Concepts Limited

Ekta Seth **Managing Director**

(DIN 08141902)

Encore Asset Reconstruction Company Private Limited (Encore Arc) **Encore ARC Corporate Office Address:**

5TH FLOOR, PLOT NO. 137, SECTOR 44, GURUGRAM - 122 002, HARYANA

E-AUCTION SALE NOTICE E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Proviso to Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules).

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to Indostar Capital Finance Limited (ICFL) to secure the outstanding dues in the loan account since assigned to the Encore Asset Reconstruction Company Private Limited, acting in its capacity as the trustee of EARC -Bank-030-Trust ("Secured Creditor"), the symbolic possession of which has been taken over by the Authorised Officer (AO) of the Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" basis on 29.09.2025 for recovery of Rs. 2,42,37,897/- (Rupees Two Crore Forty Two Lakhs Thirty Seven Thousand Eight Hundred Ninety Seven Only) as on 31.08.2025 and further interest at contractual rate till recovery and other costs, charges etc. after adjustment of recovery/realization, if any, due to the Secured creditor from M/s. Nived International Garments Private Limited (Borrower), Mr. Neeraj Saini (Co-borrower/Mortgagor), Mr. Raj Bahadur (Co-Borrower) and Mrs. Vidya Saini (Co-Borrower) The description of the property, Reserve Price (RP) for the secured asset & the Earnest

Money Deposit (EMD) is be as under:

1	Description of the Immovable Secured Asset	Reserve Price	EMD
	"Entire Basement having covered area 1300 Sq. Ft. and entire ground floor having covered area 1300 Sq. Ft. total covered area 2600 Sq Ft. along with one car parking constructed on residential plot no. 103, on orange drive measuring 207.53 Sq. mtrs along with proportionate undivided, impartiable share and interest in the said land situated in the residential colony known as Malibu Twon in revenue estate of village Tikri Fatehpur and Jharsa, Tehsil Badshahpur & Distt. Gurgaon, Haryana Boundaries East: Plot No. OD-102, West: Plot No. OD-104, North: 9 mtr wide Road, South: Revenue Rasta	2,28,00,000/-	22,80,000

In case the e-auction date is declared public holiday then the date will be automatically extended to very next working day.

For detailed terms & conditions please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e., http://www.encorearc.com/ For any clarification/information, interested parties may contact the Authorised Officer of the

Secured Creditor on mobile no. 9873181249/8384075292 or email at sachin.kumar@encorearc.com Sachin Kumar (Authorised Officer)

Date: 08.09.2025 Encore Asset Reconstruction Company Pvt. Ltd. acting in its capacity as the trustee of EARC -Bank-030-Trust Place: Gurugram

epaper.financialexpress.com

Email Id: drfresh@drfreshassets.com Telephone No.: 011-41679238

Please note that a person whose name is recorded in register of members or in the

New Delhi

contact Mr. Sharwan Mangla, General Manager, MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor,

Place : New Delhi Whole Time Director, DIN: 07081958 Date: 06.09.2025

after dispatch of Notice of AGM and hold shares as on the Cut-off date i.e. September 20,



पंजीकृत कार्याक्षय: -74, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली 110020 ईमेल आईडी: compliance@plazawires.in ; टेलि. नंबर: 011-66369696 ; www.plazawires.in

एतद्दवारा **सचना** दी जाती है कि प्लाजा वायर्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की उन्नीसवीं (19वीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) वीडियो कॉर्न्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ए-74 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली - 110020 में **मंगलवार, 30 सितंबर 2025** को दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें 19वीं एजीएम के आयोजन की सचना में निर्दिष्ट मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। यह आम सभा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और साथ ही कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("**एमसीए**") द्वारा इस संबंध में जारी पहले के परिपत्रों के साथ पंठित एमसीए द्वारा जारी 25 सिलंबर 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 (सामृहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") द्वारा इस संबंध में जारी पहले के परिपत्रों के साथ पठित सेबी द्वारा जारी 07 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 (सामृहिक रूप से **"सेबी परिपन्न**" के रूप में संदर्भित)) के प्रावधानों के सम्यक अनुपालन में आयोजित की जा रही है।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 19वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को पहले ही केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई हैं, जिनके नाम शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को कारोबार समाप्ति समय तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज थे और जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी, या कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट (आरटीए) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') के पास पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेजों की ईमेलिंग **शनिवार, 06 सितंबर, 2025** को पूरी हो गई है।

ई-वोटिंग के बारे में सचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेंड (एनएसडीएल) के माध्यम से एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सविधा प्रदान करती है। बोर्ड ने मेसर्स शर्मा एंड त्रिवेदी एलएलपी (LLPIN: AAW-6850), कंपनी सचिव के नामित भागीदारों श्री सचिन शर्मा (सी.पी. सं. 20423) या उनकी अनुपस्थिति में, श्री दिनेश त्रिवेदी (सी.पी. सं.: 22407) या उनकी अनुपस्थिति में, श्री विश्वनाथ (सी.पी. सं.: 25099) को निष्पक्ष

और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। क) एजीएम की सूचना में उल्लिखित सामान्य और विशेष कार्य इलेक्टॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं। ख) कट-ऑफ तारीख अर्थात **मंगलवार, 23 सितंबर, 2025** को शेयर धारित करने वाले सदस्य, ई-वोटिंग के माध्यम से सचना में उल्लिखित

कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सचना भेजे जाने के बाद शेयर अर्जित करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख अर्थात मंगलवार. 23 सितंबर 2025 को शेयर धारित करता है, वह https://www.evoting.nsdl.com/ पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

 रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 27 सितंबर 2025 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर 2025 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इसके बाद, एनएसर्डीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तारीख और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ड.) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

च) वार्षिक आम बैठक में इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

छ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई- वोटिंग द्वारा अपना वोट जाल दिया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक के दौरान दोबारा

ज) सदस्य कपया ध्यान दें कि वार्षिक आम सभा की सचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.plazawires.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com और एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर भी उपलब्ध है।

झ) यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न/शिकायत हो, तो वे https://www.evoting.nsdl.com/ के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('FAQs') और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मेनुअल र्देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022 - 48867000 पर कॉल कर सकते हैं।

बुक क्लोजर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 19वीं वर्षिक आम सभा (एजीएम) के उद्देश्य से कंपनी की शेयर टान्सफर बही और सदस्यों का रजिस्टर वर्धवार, 24 सितंबर 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों (नोट्स) और विशेष रूप से एजीएम में भाग लेने संबंधी निर्देश, रिमोट ई-वोर्टिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढें।

> कृते प्लाज़ा वायर्स लिमिटेड (भाविका कपिल) कंपनी सचिव

> > सदस्यता सं. A62612

दिनांक: 6 सितंबर 2025 स्थान: नई दिल्ली

> **JAIPRAKASH** ASSOCIATES LIMITED

> > CIN: L14106UP1995PLC019017

Registered Office: Sector 128, Noida-201 304, Uttar Pradesh, India Tel.: +91 (120) 2470800 **Delhi Office:** 'JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057 Tel.: +91 (11) 49828500 Fax: +91 (11) 26145389

Corporate Office: 64/4, Site 4, Industrial Area, Sahibabad, Distt. Ghaziabad-201010 Uttar Pradesh **Tel.:** +91 (0120) 4963100, 4964100 **Website:** www.jalindia.com; **E-mail:** jal.investor@jalindia.co.in

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of Jaiprakash Associates Limited is scheduled to be held on Monday, the September 29, 2025 at 11.30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at the common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time including the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and the provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and various circulars issued by the SEBI, to transact the business as set out in the AGM Notice dated September 06, 2025. The information and instructions for members to attend AGM through VC/ OAVM are explained in the notes to the Notice. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the e-mail communication containing links to download the Notice of the 28th AGM and the Annual Report for the year 2024-25 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditors' Reports and other documents required to be attached therewith have been sent on 7th September, 2025, to the members of the Company, whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories as on **29th August**, **2025.** Further, as required by Regulation 36(1) of the SEBI Listing Regulations, a letter containing the weblink to access the Notice and Annual Report has also been sent to those members whose e-mail addresses are not registered with Company/RTA or with their respective Depository Participants. The Annual Report and the Notice are available on Company's weblink http://jalindia.com/annualreports.html, websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of (India) Limited and the Notice of AGM is also available on weblink of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) https://www. evotingindia.com/noticeResults.jsp.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2025 (at closing hours), right to exercise their votes on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system before the date of AGM ("remote e-Voting") and e-voting system during the AGM ("e-voting") through e-voting system provided by CDSL. All the members are informed that:

i. The business as set out in the Notice of AGM, may be transacted through remote e-voting/ e-voting system during AGM;

The remote e-voting shall commence on Friday, the 26th September, 2025 (9.00 a.m. IST):

The remote e-voting shall end on **Sunday**, the **28th September**, **2025** (5.00 p.m. IST);

The **cut-off date**, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or e-voting during AGM

shall be Monday, 22nd September, 2025 (at closing hours);

Members may note that; a) the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on the resolution(s) is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their votes by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their votes again through the e-Voting system during the AGM; c) The Member participating in the 28th AGM and who had not cast their votes by remote e-Voting, shall be entitled to cast their votes through e-Voting system during the AGM; and d) only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting at the time of AGM.

Voting rights (for voting through remote e-voting /e-voting during AGM) shall be reckoned on the paid up values of the share registered in the name of the members of the Company as on the cut-off date.

vi) In case of any queries or issues/grievance regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www. evotingindia.com, under help section or write to Mr. Rakesh Dalvi, AVP. (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800225533.

vii) Shareholders who wish to register their email address/ bank account mandate may follow the below instructions:

Dematerialized Holding | Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your Depository Participant. Register/update the details in prescribed Form No. ISR-1 and other forms Physical Holding

with RTA (M/s Alankit Assignments Limited) at info@alankit.com. Members may download the prescribed forms from the Company's website at http://jalindia.com/investor-servicer-request.html

viii) NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Act, read with Rule 10 of Companies (Management

and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 23rd September, 2025 to Monday, 29th September 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

SOM NATH GROVER

Place: Noida Vice President & Company Secretary Membership No. FCS-4055 Date: 8th September, 2025

9 सितंबर, 2025 जनसता

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF

ESAAR (INDIA) LIM

("ESAAR"/ "EIL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L67120MH1951PLC222871) Registered Office: Shop No. 06, Prathamesh Avenue, Datta Mandir Road, Malad East, Mumbai, Maharashtra, India, 400097; Corporate Office: 101, First Floor, Western Edge I, Western Express Highway, Borivali (East), Mumbai, Maharashtra, India, 400066 Phone No.: +91-8104417080; 8858498847; Email id: cs@esaar.in; Website: www.esaar.in

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of M/s. Prabhat Capital Investments Limited (Acquirer) in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 53,15,050 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the Fully Paid-up Equity and voting share capital of the Target Company. The Offer Opening Public Announcement pursuant to Detailed Public Statement ("DPS") and the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions) and Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) on

August 29, 2025. Acquirer has completed the dispatch of the Physical Letter of Offer on August 22, 2025 to such shareholders whose email addresses were not registered with Target Company pursuant to regulation 18(2) of the Securities and Exchange Board of

India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") Various Letter of Offers are returning undelivered. Hence it is to be reiterated that copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.navigantcorp.com.

Shareholders who have not received the Letter of Offer can tender the shares in accordance with procedure described in clause 8.15 on 27 of Letter of Offer, which is reproduced as below:

Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:

Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified date, or those who have not received the Letter of offer, may also participate in this Offer. A shareholder may participate in the Offer by approaching their broker and tender Equity shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in this Letter of Offer or in the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement. The Letter of Offer along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement will be dispatched to all the eligible shareholders of the Target Company as on the Identified date. In case of nonreceipt of the Letter of Offer, such eligible shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or BSE website (www.bseindia.com) or Merchant Banker website (www.navigantcorp.com) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity shares of the Target Company. Alternatively in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder, stating name, address, number of shares held, client ld number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents such as physical share certificates and Form SH-4 in case of shares being held in physical form. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the BSE before the closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED

79 Navigant

Email id: navigant@navigantcorp.com

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kuria Road, Andheri East, Mumbai - 400059. Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078

Website: www.navigantcorp.com SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai Date: September 08, 2025



ओसवाल पम्प्स लिमिटेड

सीआईएन: L74999HR2003PLC124254 पंजीकृत कार्यालयः ओसवाल एस्टेट, एनएच-1, क्टैल रोड, डाकघर कुटैल, जिला करनाल, हरियाणा-132037 संपर्क संख्या: +91 184 3500 300

वेबसाइट: www.oswalpumps.com;

Solar: Domestic (Aprouture (Industrial) ईमेल आईडी: Investorrelations@oswalpumps.com

22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्दवारा सचित किया जाता है कि ओसवाल पंप्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 22वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 1400 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जो कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी लागू परिपत्रों और / या दिशानिर्देशों के अनुपालन में है, जिससे कंपनियों को वीसी या ओएवीएम (सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति मिलती है, ताकि 04 अगस्त, 2025 के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों का संचालन करने के लिए ('एजीएम नोटिस')। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में

अधिनियम के प्रावधानों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों और परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने 08 सितंबर, 2025 को एजीएम नोटिस और वित्तीय वर्ष ('वित्त वर्ष') 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को पूरा कर लिया है, जिन्होंने कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स ('आरटीए') अर्थात एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व की लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के साथ कट—ऑफ तारीख यानी 29 अगस्त, 2025 तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है। एजीएम नोटिस और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://oswalpumps.com / पर भी, साथ ही बीएसई लिमिटेड (https://www.bseindia.com/) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (https://www.nseindia.com/) की वेबसाइट पर, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, पर उपलब्ध है। एजीएम नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रसारित किया जाएगा । सेबी सुचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में, 08 सितंबर, 2025 को उन सदस्यों को एक भौतिक संचार भी भेजा गया है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें कंपनी की वेबसाइट का वेबलिंक और सटीक पाथ शामिल है जहां से एजीएम नोटिस और वित्त वर्ष 2024—25 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस की जा सकती है।

अधिनियम की घारा 108 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने की ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश एजीएम नोटिस में दिए जा रहे हैं। सदस्यों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि एजीएम नोटिस में उल्लिखित कार्य केवल ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से ही किए जाएँगे। कंपनी ने एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की सेवाएँ प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी और उसके बाद एनएसंडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी।

केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लामभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति उक्त कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सुचना को केवल सुचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी /ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। केवल वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति जो नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई– वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग उनके द्वारा वोट डालने के लिए किया जा सकता है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और परिणामस्वरूप, उन्हें एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी में, जहाँ उनका डीमैट खाता है, अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करा लें।

ई—वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन के 2 (दो) कार्यदिवसों या 3 (तीन) दिनों, जो भी पहले हो, के भीतर घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट https://oswalpumps.com/और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात एनएसई और बीएसई को भी एक साथ सूचित किया जाएगा।

ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के लिए, आप www.evoting@nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा e-voting user manual for the shareholders देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से निर्दिष्ट ईमेल आईडी evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

ओसवाल पम्प्स लिमिटेड के लिए अनीश कुमार कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

फाल्कान कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एन-75 भूतल, मेफील्ड गार्डन, सेक्टर-51, गूड्गांव, हरियाणा, भारत,122018 सीआईएनः L74999HR2018PLC074247, आईएसआईएनः INE0Q9W01015

स्क्रिप कोडः 544164, स्क्रिप आईडीः फाल्कन, ईमेल आईडीः info@faalcon.in, वेबसाइट www.faalcon.in वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्दवारा सचित किया जाता है कि फाल्कन कॉन्सेप्टस लिमिटेड के सदस्यों की 07वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 30 सितंबर, 2025 को शाम 05.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों (वीसी / ओएवीएम) सविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, संशोधित (सेबी सूचीकरण विनियम) के प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या ०९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर,२०२४ और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी)द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र (सामृहिक रूप से एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में,कंपनियों को एक सामान्य स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। तदनुसार,कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की जाएगी।

उक्त परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 7वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 8 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों)के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.faalcon.in पर भी उपलब्ध हैं।

साथ ही, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम,2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर 24 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित)तक बंद रहेगा। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कट—ऑफ तिथि, अर्थात 23 सितंबर, 2025 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, ई—वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 07वीं वार्षिक आम बैठक की सचना में निर्धारित अनुसार कार्यवाही पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग की

विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश कंपनी की 07वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निहित हैं। इस संबंध में, सदस्यों को इसके द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि:

दिनांक: 8 सितंबर, 2025,

स्थानः गुड़गांव

वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू

होगी और 29 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। उपरोक्त अवधि के बाद दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अंतिम तिथि तक दर्ज है, दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा।

जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी / ओएवीएम स्विधा के माध्यम से भी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित / भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वार्षिक आम बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

पंजीकरण की विधि वार्षिक आम बैठक की सूचना में उपलब्ध है। संवीक्षक एवं वक्ता पंजीकरण हेतु प्रक्रिया का विवरण वार्षिक आम बैटक की सुचना में दिया गया

जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पतों के

फाल्कन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड एकता सेठ प्रबंध निदेशक

(ভীआईएन 08141902) सुनहरी एक्सपोटर्स (हरिद्वार) लिभिटेड

सीआईएनः U36102DL2009PLC188045 पंजीकृत कार्यालयः बी 1/ई-24, मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110 044 **लीफोन नंबर :** 91—11—41679238. **ई-मेल :** sunehar

सुनहरी एक्सपोर्ट्स (हरिद्वार) लिमिटेड **('कंपनी')** के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक **('एजीएम')** शनिवार 27 सितंबर, 2025 को शाम 05.30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दश्य-श्रव्य

माध्यमों **('ओएवीएम')** के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 **('अधिनियम')** और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 25 सितंबर, 2023 के परिपत्रों और 7 अक्टूबर, 2023 के सेबी परिपत्रों के साथ पठित, आयोजित की जाएगी 2023, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र 09/2024 और सेबी द्वारा जारी 3 अक्टूबर, 2024 के सेबी/एचओ/सीडी/सीडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 (जिन्हें सामृहिक रूप से **"प्रासंगिक परिपत्र"** कहा जाता है) के साथ पठित, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचन प्रासंगिक परिपत्र के अनुपालन में. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024–25. जिसमे

वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, कंपनी के उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल द्वारा भेजे जाएँगे जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ऑ) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज़ नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराए जाएँगे। सदस्य www.evoting.nsdl.com पर वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकेंगे और

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के वार्षिक आम बैठक के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और/या ई-वोटिंग के लिए निर्देश :

ई-वोटिंगः अधिनियम, सेबी लिस्टिंग विनियमों और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनसार, कंपनी अपने सदस्यों के वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य दूरस्थ रूप से **("दूरस्थ ई—वोटिंग")** अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए एनएसडीएल इसके अलावा, वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध

कराई जाएगी और वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट इवोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा, शेयरधारक रिमोट इवोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वार्षिक आम बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों को एनएसडीएल के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देश सुचना में दिए

अधिनियम और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विवरण नीचे दिए

1. ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजने की अंतिम तिथि 6 सितंबर, 2025 2 रिमोट ई-वोटिंग शरू होने की तिथि और समय 24 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से 26 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे शनिवार, 20 सितंबर, 2025 5. रिमोट ई-वोटिंग की इस तिथि व समय के बाद 26 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे

6. इलेक्टॉनिक वोटिंग से संबंधित शिकायतों के समाधान विजय प्रकाश पाठक, निदेशक ४५२, डीडीए जनता

के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का संपर्क विवरणः

टेलीफोन नंबर : 011-41679238 ई–वोटिंग से संबंधित जानकारी और निर्देश, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड का विवरण शामिल है, सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए उन्हीं लॉगि

कपया ध्यान दें कि जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनार -गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के साथ–साथ एजीएम में मतदान करने का भी हकदार होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य

बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 20 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह सचना के साथ भेजे गए निर्देशों में उल्लिखित तरीके से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। रेमोट ई—वोटिंग या वार्षिक आम बैठक के दौरान ई—वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारक एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर संपक्

कर सकते हैं या श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज ।।, नई दिल्ली 110020 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी - info@masserv.com पर संपर्क कर सकते हैं जो आपकी शिकायतों का समाधान करेंगे। कृते सुनहरी एक्सपोर्ट्स (हरिद्वार) लिमिटेड

> विजय प्रकाश पाठक पर्णकालिक निदेशक, डीआईएन : 07081958

> > अचल संपत्ति की बिक्री)

म्लैट्स, बदरपुर दिल्ली— 110 044

ईमेल आईडीः drfresh@drfreshassets.com

गृहम हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड (पूर्व में पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

दिनांकः 8 सितंबर, 2025

दिनांकः ०९.०९.२०२५ स्थानः : बरेली

स्थानः करनाल

पंजीकृत कार्यालयः ६वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रुनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र ४११०१४ . ब्रांच ऑफ यूनिटः ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित पहली मंजिल, पीछे का हिस्सा, 154-ए, ''ए स्क्वायर बिल्डिंग'', सिविल लाइंस, बरेली, युपी- 243 001

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : 06-09-2025

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम') के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित। एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड र बदलकर गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया है, जो 17 नवंबर 2023 से प्रभावी है (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था तथा मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित है) (जिसे अधिनियम के अनुसार ''सुरक्षित ऋणदाता' के रूप में संदर्भित किया गया है) को बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनसरण में लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से 10/10/2025 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कूछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम

р і . Ні.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिषत) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तारीख (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तारीख और समय (जे)	बाधाएँ / न्यायाल य मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो (के)
1 HF और HF प्रमोव मीना	ा संख्या 50100H21100415 50100H20100314 द गुप्ता (उधारकर्ता) ा गुप्ता :उधारकर्ता)	सूचना की तिथिः: 08/09/2024 520896.00/— रुपये (पाँच लाख बीस हजार आठ सी छियानबे रुपये) 08/09/2024 तक देय होंगे, साथ ही वसूली तक 16.25% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। 1271098/— रुपये (बारह लाख इकहत्तर हजार अंठानबें रुपये) 08/09/2024 तक देय होंगे, साथ ही वसूली तक 16% वार्षिक ब्याज भी देय	भौतिक	घर संख्या 373 का वह पूरा हिस्सा, मोहल्ला फरकपुर मजहौआ, तहसील फिरोजाबाद, जिला बरेली। क्षेत्रफलः 78 वर्ग गज। बिक्री—पट्टे में इसका विशेष उल्लेख है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः खरांजा नगर पालिका, पश्चिमः राजपाल का घर, उत्तरः गिरवर का घर, दक्षिणः राम कुमार का घर	35,48,026 / — रुपये (केवल तैंतीस लाख अड़तालीस हजार छब्बीस रुपये)	3,54,802.60 रुपये (तीन लाख चौवन हजार आठ सौ दो रुपये और साठ पैसे मात्र)	29-09-20 25 शाम 5 बजे से पहले	10,000 / -	25-09-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	10—10—2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली / पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है और नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, जो ई—बोली के लिए अनिवार्य है। पता— प्लॉट नंबर—68 तीसरी मंजिल गुडगांव हरियाणा—122003। हेल्पलाइन नंबर— 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी . Support@bankeauctions.com, संपर्क व्यक्ति –धरनी पी, ईमेल आईडी– dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर— 9948182222। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे र्ह

ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", बैंक—आईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बखाता नाम – गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – नीलामी आय खाता, खाता संख्या – में जमा करनी होगी। खाता संख्या– 091551000028 और IFSC कोड- ICIC0000915 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपित चौक के पास, 43/44 विमान नगर – 411014 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में 29/09/2025 को या उससे पहले खींचे और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और मुफ्त में उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छूक क्रेता / बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोर्ड करने, ई—मेल करने और स्व—सत्यापित हार्ड कॉपी को पते पर भेजने की आवश्यकता होती हैः पहली मंजिल, पीछे का हिस्सा, 154—ए, "ए स्क्वायर बिल्डिंग", सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश— 243 001 मोबा. इल नंबर + 91 95676 26050 ईमेल आईडी rahul.r1@grihumhousing.com नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई—नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर को दिया गया 30 दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए। किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की विवरण में कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की विवरण मान्य होगी।

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)